

Temperature Rising

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r

s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , .

Leaned out, leaning, hushing the room enclosed. Footsteps shuffled on the stairs. Under the flickerlight, under the crush, her hair spread out in fiery points

I think we are in cats alley ^{the} where the dead men lost their bones. What is that noise. The mind under the door. What is that noise now. What is the mind doing. Nothing again nothing.

Do you know nothing. Do you see nothing. Do you remember. Nothing. I remember those are pearls that were his eyes. Are you alive, or not? Is there nothing in your head?

But that Shakespearean Rag its so elegant so intelligent

Leaned out, leaning, hushing the room enclosed. Footsteps shuffled on the stairs.

Under the flickerlight, under the crush, her hair spread out in fiery points

glowed into words, then would be savagely still.

My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me. Speak to me. Why do you never speak. Speak.

What are you thinking of? What thinking. What I never know what you are thinking. Think.

I think we are in cats alley ^{the} where the dead men lost their bones.

What is that noise. The mind under the door.

What is that noise now. What is the mind doing